

12:29 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE SALAR JUNG MUSEUM BOARD

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhenda Misra): Sir, on behalf of Shri Hajarnavis, I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, for the year 1963-64. [Placed in Library. See No. LT-4367/65].

12.31 hrs.

RE: SITUATION ON KUTCH BORDER

Some hon. Members rose—

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री साहब . . . .

अध्यक्ष महोदय : बार बार रोज इस तरह से होता रहता है . . . . (इंटर-रॉस)

डा० राम मनोहर लोहिया : इस सम्बन्ध में बंद मत करिये बल्कि हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अगर प्रधान मंत्री गलत कदम उठा कर समझौता करना चाहेंगे तो वह हमारी छाती के ऊपर पीर रख कर वह समझौता करेंगे । उनको हम कोई गलत समझौता नहीं करने देंगे । इस में सारे देश को रोष आ रहा है ।

Shri Vasudevan Nair (Ambalaphuza): May I seek a clarification?

Mr. Speaker: No; no new statement has been made.

Shri Vasudevan Nair: Some proposals have appeared in the newspapers.

Mr. Speaker: He has said what his stand is. I am not concerned with what the papers say. (Interruption). This House must take for the present what the Government says. . . . (Interruption).

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Kindly hear me for a minute.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): The point is not about anything which the Prime Minister has said. The other day he said that he could not divulge the cease-fire proposals made by the United Kingdom. We find all the proposals have come out in the newspapers. He could not inform Parliament. He could have easily said, "We have not accepted them but these are the proposals". He could not do that for whatever the reason may be. But it seems the papers have got it and have published their own thing. Either it has leaked out from the Government departments or the Secretaries or from the United Kingdom. That is why Parliament feels agitated that these things should be placed formally before Parliament making it clear that we have not accepted it rather than come in a roundabout way where the press actually use these in order to build up public opinion.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विलसन का एक बयान पढ़ कर मुनाना चाहता हूँ । श्री विलसन जिनके कि साथ श्री शास्त्री ने जो कुछ किया है वह किया है । "आलदो दी हाउस"—हाउस का मतलब अंग्रेजी के सदन में है ।

"Although the House may find it a little difficult, as I do, to understand or explain the difference between a decision not to fire and an actual cease-fire—I think that we may call this a *de facto* cease-fire—we are less concerned with semantics than with the fact that, as things appear to us today,